

SIMPLE PRESENT TENSE

Tenses English grammar का एक बहुत ही महत्वपूर्ण **lesson** है। अगर एक बार **tenses** सही से समझ आ गए तो आपकी लगभग आधी **problem solve** हो सकती है। **Tenses** के बारे में आपको भी थोड़ी बहुत **knowledge** होगी ही। जैसे **Tenses** तीन प्रकार के होते हैं -

Present Tense (वर्तमान काल)

Past Tense (भूत काल)

Future Tense (भविष्य काल)

आपमें से बहुत लोग यह भी जानते होंगे कि इन तीनों **tenses** को फिर से 4 भागों में बांटा गया है -

Present Tense (वर्तमान काल)

- > Simple Present Tense
- > Present Continuous Tense
- > Present Perfect Tense
- > Present Perfect Continuous Tense

Past Tense (भूत काल)

- > Simple Past Tense
- > Past Continuous Tense
- > Past Perfect Tense
- > Past Perfect Continuous Tense

Future Tense (भविष्य काल)

- > Simple Future Tense
- > Future Continuous Tense
- > Future Perfect Tense
- > Future Perfect Continuous Tense

आज की **class** में हम, और आगे की **next 2 classes** में हम इन्हीं **tenses** के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इनमें **sentences** बनाये जाते हैं। पर उससे भी **important** एक बात है जो हम इन **classes** में जानेंगे और वो है कि किस समय कौनसा **tense** उसे किया जाएँ। अगर आपको यह पता होगा तो आपकी **Spoken English** और **Written English** दोनों ही प्रभावशाली और बिना गलती के होंगे।

तो चलिए आज की **class** शुरू करते हैं **PRESENT TENSE** (वर्तमान काल) से

Present Tense (वर्तमान काल)

Simple Present Tense/ Present Indefinite tense

सबसे पहले जानते हैं कि **Present Indefinite tense** का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है -

1. वर्तमान समय में या हमेशा सच होने वाले कथनों को व्यक्त करने के लिए (To express truths in present time or statements which are true at all times) जैसे -

The sun rises in the east. (सूर्य पूर्व में उगता है।)

यह कथन हमेशा ही सत्य है और इसे कोई बदल नहीं सकता इसलिए ऐसी बातों को बताने के लिए **Present Indefinite tense** का प्रयोग होता है।

New Delhi is the capital of India. (नई दिल्ली भारत की राजधानी है।)

इस वाक्य में **is** क्रिया है जो यह दर्शा रहा है कि यह कथन वर्तमान समय में सत्य है।

"is" is a verb in the sentence. It is the simple present tense.

2. ऐसी क्रिया को बताने के लिए जो नियमित रूप से होती है- यह ज्यादातर आदतों के संदर्भ में है (To show an action that happens regularly- This is mostly in terms of habits)

I go to sleep at 9 PM. (मैं रात को 9 बजे सोने जाता हूँ।)

She goes for a walk daily. (वह रोज टहलने जाती है।)

He goes on a trip every weekend. (वह हर सप्ताहांत पर घूमने जाता है।)

इन सभी वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है और अब एक तरह से आदत में बदल गया है।

3. भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने में जो पहले से planned या schedule हो (To express fixed arrangements, present or future)

My flight departs tomorrow at noon. (मेरी फ्लाइट कल दोपहर को रवाना होगी।)

Your exam starts at 09.00 AM. (आपकी परीक्षा सुबह 09.00 बजे से शुरू होगी।)

इन दोनों ही वाक्यों में भविष्य की बात की गयी है पर कार्य का समय पहले से निश्चित है, ऐसी घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम **Present Indefinite tense** का प्रयोग करते हैं।

4. निर्देश या दिशा बताने के लिए (To give instructions or directions)

You walk for two hundred meters, then you turn left. (आप दो सौ मीटर तक चलें, फिर आप बाएं मुड़ जाएं।)

5. ऐसी situations को व्यक्त करने में जिनके बदलने की उम्मीद बहुत कम हो (Used to express permanent situations which are less likely to change)

He doesn't eat Italian food. (वह Italian खाना नहीं खाता है।)

Present Indefinite tense को simple present tense भी कहा जाता है। **Present indefinite tense** में हिन्दी वाक्यों के अन्त में **ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो** आदि आता है।

Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + ("s" या "es" Singular Subject के साथ) + Object

(3rd Person) Singular का मतलब **He / She, It, particular Name** है।

I play the piano. (मैं प्यानो बजाता हूँ।) (I के साथ Verb (क्रिया) की 1st Form - play)

The bus passes through your street. (आपकी गली से बस गुजरती है।) (The bus - बस एकवचन है इसलिए **passes - verb + es**)

The party starts at nine. (पार्टी नौ बजे शुरू होती है।)

Lata needs our help now. (लता को अब हमारी मदद की जरूरत है।) (Lata एकवचन - एक person का नाम है इसलिए **verb + s**)

We play tennis after office each day. (हम हर दिन ऑफिस के बाद टेनिस खेलते हैं।) (We बहुवचन में आता है इसलिए Verb (क्रिया) की 1st Form)

She understands English. (वह अंग्रेजी समझती है।)

It mixes the sand and the water. (यह रेत और पानी को मिलाती है।)

She enjoys playing the piano. (उसे पियानो बजाने में मजा आता है।)

अगर आप ऊपर के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें तो **rule** समझ में आ जाएंगे।

Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + do / does + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object

नकारात्मक वाक्य में जब हम **does not** का प्रयोग करते हैं, उस समय **verb** की सिर्फ **1st Form** ही लगाते हैं, **s/es** नहीं लगाते।

I do not (don't) play the piano. (मैं पियानो नहीं बजाता हूँ।)

The bus does not (doesn't) pass through your street. (आपकी गली से बस नहीं गुजरती है।) (does not के साथ **s** या **es** का प्रयोग नहीं किया गया है)

The party doesn't start at nine. (पार्टी नौ बजे शुरू नहीं होती है।)

Lata doesn't need our help now. (लता को अब हमारी मदद की जरूरत नहीं है।)

We don't play tennis after office each day. (हम हर दिन ऑफिस के बाद टेनिस नहीं खेलते हैं।)

She doesn't understand English. (वह अंग्रेजी नहीं समझती है।)

It doesn't mix the sand and the water. (यह रेत और पानी को नहीं मिलाती है।)

She doesn't enjoy playing the piano. (उसे पियानो बजाने में मजा नहीं आता है।)

Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)

Do/ Does + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object?

Do I play the piano? (क्या मैं पियानो बजाता हूँ।)

Does the bus pass through your street? (क्या आपकी गली से बस गुजरती है?)

Does the party start at nine? (क्या पार्टी नौ बजे शुरू होती है?)

Does Lata need our help now? (क्या लता को अब हमारी मदद की जरूरत है?)

Do we play tennis after office each day? (क्या हम हर दिन ऑफिस के बाद टेनिस खेलते हैं?)

Does she understand English? (क्या वह अंग्रेजी समझती है?)

Does it mix the sand and the water? (क्या यह रेत और पानी को मिलाती है?)

Does she enjoy playing the piano? (क्या उसे पियानो बजाने में मजा आता है?)

अगर वाक्य में **Wh** शब्द हो तो उसे वाक्य में सबसे पहले लगाया जाता है -

Question word + do/does + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object?

जैसे -

आप कहाँ रहते हैं? (Where do you live?).

आप रात को कौनसी फिल्म देखते हैं? (Which film do you watch at night?)

आप सुबह सुबह किसको पढ़ाते हैं? (Whom do you teach in the morning?)

Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)

Do/ Does + Subject (कर्ता) + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + Object?

Do I not play the piano? (क्या मैं प्यानो नहीं बजाता हूँ।)

Does the bus not pass through your street? (क्या आपकी गली से बस नहीं गुजरती है?)

Does the party not start at nine? (क्या पार्टी नौ बजे शुरू नहीं होती है?)

Does Lata not need our help now? (क्या लता को अब हमारी मदद की जरूरत नहीं है?)

Do we not play tennis after office each day? (क्या हम हर दिन ऑफिस के बाद टेनिस नहीं खेलते हैं?)

Does she not understand English? (क्या वह अंग्रेजी नहीं समझती है?)

Does it not mix the sand and the water? (क्या यह रेत और पानी को नहीं मिलाती है?)

Does she not enjoy playing the piano? (क्या उसे पियानो बजाने में मजा नहीं आता है?)

Present Continuous Tense

वर्तमान काल में कोई क्रिया जारी है, यह अर्थ व्यक्त करने के लिए इस **tense** का प्रयोग होता है। हिंदी में इन वाक्यों के अंत में क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे और उसके बाद में हूँ, है, हैं का प्रयोग होता है।

जब भी हम इस **tense** का प्रयोग करते हैं तो यह बताता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अन्य शब्दों में जब आपको ऐसी घटना के बारे में बात करनी हो जाओ वर्तमान सकी में चालू है तो आप इस **tense** का प्रयोग करेंगे।

1. क्रिया जब हम बात कर रहे हैं, उस समय हो रही हो (actions happening at the moment of speaking - now, at the moment)

Mahira is reading a book now. (माहिरा अभी एक किताब पढ़ रही है।)

I am listening to the radio. (मैं रेडियो सुन रहा हूँ।)

2. उस घटना को बताने के लिए जो भविष्य में होने वाली है और पहले से ही planned है (For describing an event in the future, which has already been planned)

She is going to Ajmer on Saturday. (वह शनिवार को अजमेर जा रही है।)

3. always, forever, constantly के साथ इस tense का प्रयोग करते हैं (With “always, forever, constantly”, to describe a continuing series of repeated actions)

You're constantly complaining about your boss! (आप अपने बॉस के बारे में लगातार शिकायत कर रहे हैं!)

4. आज के नए trends को बताने के लिए (When an action happening at the current time (current age) or a trend)

People are playing PUBG now a days. (लोग आजकल PUBG खेल रहे हैं।)

5. अस्थायी कार्य को बताने के लिए भी इस tense का प्रयोग होता है (to describe temporary actions)

His father is working in London this month. (उसके पिता इस महीने लंदन में काम कर रहे हैं।)

कुछ बातें याद रखने योग्य हैं -

1. इस tense में helping verb (सहायक क्रिया) is/ am/ are होती है।
2. is/ am/ are के बाद verb के साथ ing का प्रयोग होता है।
3. अगर subject (कर्त्ता) singular है तो is, I के साथ am और यदि subject plural (बहुवचन) है तो are का प्रयोग होता है।

Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्त्ता) + is/ am/ are + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object

She is crying. (वह रो रही है।)

He is talking to his friend. (वह अपने दोस्त से बात कर रहा है।)

The baby is sleeping in his crib. (बच्चा अपने पालने में सो रहा है।)

We are visiting the museum in the afternoon. (हम दोपहर में संग्रहालय देखने जा रहे हैं।)

I am going to the meeting after work. (मैं काम के बाद मीटिंग में जा रहा हूँ।)

Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + is/ am/ are + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object

She is not crying. (वह नहीं रो रही है।)

He is not talking to his friend. (वह अपने दोस्त से बात नहीं कर रहा है।)

The baby is not sleeping in his crib. (बच्चा अपने पालने में नहीं सो रहा है।)

We are not visiting the museum in the afternoon. (हम दोपहर में संग्रहालय देखने नहीं जा रहे हैं।)

I am not going to the meeting after work. (मैं काम के बाद मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ।)

Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)

Is/ Am/ Are + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object?

Wh word + is/ am/ are + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object?

Are you listening? (क्या आप सुन रहे हैं?)

Are they coming to your party? (क्या वे आपकी पार्टी में आ रहे हैं?)

Is the baby drinking his bottle? (क्या बच्चा अपनी बोतल पी रहा है?)

Are you going? (क्या आप जा रहे हैं?)

When is she going home? (वह घर कब जा रही है?)

What am I doing here? (मैं यहां क्या कर रहा हूँ?)

Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)

Is/ Am/ Are + Subject (कर्ता) + not + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object?

Are they not going to market? (क्या वे बाजार नहीं जा रहे हैं?)

Am I not learning english? (क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ?)

Present Simple और Present Continuous में अंतर समझें

Present Simple और Present Continuous में अंतर समझें

1) Present Simple - उस घटना को बताता है तो सदैव सत्य रहती है जैसे - Water boils at 100 degrees.

जबकि Present Continuous उस घटना के बारे में बताता है जो बात करते समय हो रही है जैसे - The water is boiling now, so you can put in the tea leaves.

2) **Present Simple - Permanent situations** को दर्शाती है जो **atleast** आने वाले कुछ समय तक नहीं बदलेगी - **She lives in London.** (वह अभी वहीं रहेगी।)

जबकि **Present Continuous - Temporary situations** को बताती है जो धीरे धीरे बदल जायेगी - **She is living in Paris for a few months.** (सामान्यतः वह London में रहती है पर अभी कुछ महीनों से Paris में रह रही है।)
I'm getting better and better at speaking English. (Situations धीरे धीरे बदल रही है)

3) **Present Simple** आदतों (Habits) और अउ क्रियाओं को बताता है जो हम **regularly** करते हैं जैसे - **I drink coffee every morning.**

जबकि **Present Continuous** अस्थाई या नयी आदतों को बताता है जैसे - **I'm drinking too much coffee these days because I'm so busy at work.**

या फिर **Annoying habits** को (usually with 'always') **My roommate is always leaving the room in a mess!**

4) **Present Simple - Future events** जो की **timetable** का हिस्सा हो, उसे दर्शाता है जैसे - **My plane leaves at eight tonight.**

जबकि **Present Continuous** एक **Definite future plan** को बताता है जैसे - **I'm meeting you after class today.**

Present Perfect Tense

वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है यह दर्शाने के लिए **Present Perfect Tense** का प्रयोग किया जाता है। अन्य शब्दों में जब आप किसी से बात करते हैं और कोई काम जो आपकी बातचीत के पहले हो चुका होता है तथा आप उस हो चुके काम का जिक्र अपनी बातचीत में करते हैं तो वह **Present Perfect Tense** का प्रयोग करते हैं। (The present perfect tense is used to describe something that happened in the past, but the exact time it happened is not important. It has a relationship with the present.)

हिंदी वाक्यों के अंत में 'चुका है', 'चुकी है', 'या है', 'आ है', 'ये हैं' आदि शब्द आते हैं। जैसे -

I have done my homework. (मैं अपना गृहकार्य कर चुका हूँ।)

मैंने अपना काम **past** में पूरा कर लिया है। यह **important** नहीं है कब, महत्वपूर्ण यह है कि अभी वह काम पूरा हो चुका है।)

हमने इसके साथ कोई मभी **exact time** नहीं बताया हैं जैसे - **I have done my homework yesterday.** यह लिखना या बोलना गलत हैं। क्योंकि अगर हम एक **exact** समय बताते है भूतकाल में, तो उस स्थिति में **Simple Past tense** का प्रयोग करते हैं। तो सही वाक्य होगा **I did my homework yesterday.**

He, she, it और एकवचन **noun subject** के साथ **has** और **I, you, we, they** तथा **plural subject** के साथ **have** लगाकर **verb** की **third form** लगाते हैं।

Present Perfect Tense को समझना आसान नहीं है, यह **past** और **present** का मिश्रण है। एक ऐसा कार्य जो **past** में हो चुका है पर उसका सम्बन्ध वर्तमान से है। जल्दी से देखते हैं कि **Present Perfect Tense** का प्रयोग कब करते हैं -

1. **Past** में किये गए किसी कार्य का **result** वर्तमान समय में **important** हो। कार्य का समय **important** ना हो।

(Result of an action in the past is important in the present)

I have cleaned my room. मैं अपना कमरा साफ़ कर चुका हूँ।

(It is clean now.)

2. जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो (**Recently completed actions**)

He has just played football. उसने अभी अभी फुटबॉल खेला हैं।

(It is over now.)

3. जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चालु हो - इनके साथ **since** और **for** का प्रयोग होता हैं - (**since**

(point of time) or **for** (period of time))

We have lived in Canada since 1986. (हम 1986 से कनाडा में रह रहे हैं।)

(We still live there.)

4. **lately, recently, yet** के साथ

I have been to Bangalore recently.

(no specific point of time)

He has not written the e-mail yet.

(He has not done it.)

1. इस **tense** में **helping verb** (सहायक क्रिया) **have / has** होती है।

2. **have / has** के बाद **verb 3rd Form** का प्रयोग होता है।

3. अगर **subject** (कर्त्ता) **singular** है तो **has**, **I** और **plural** (बहुवचन) **subject** के साथ है **have** का प्रयोग होता है।

Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + have / has + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object

I have seen that film before. (मैं यह फिल्म पहले देख चुका हूँ।)

They have written three letters already. (वे पहले ही तीन चिट्ठियां लिख चुके हैं।)

She has forgotten her folder. (वह अपना फोल्डर भूल चुकी है।)

I have sent a letter to him. (मैंने उसको एक पत्र भेजा है।)

She has lived in New Delhi all her life. (वह अपनी पूरी जिंदगी नई दिल्ली में रही है।)

Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + have / has + not + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object

I have not seen that film before. (मैं यह फिल्म पहले नहीं देख चुका हूँ।)

They have not written three letters already. (वे पहले ही तीन चिट्ठियां नहीं लिख चुके हैं।)

She has not forgotten her folder. (वह अपना फोल्डर नहीं भूली है।)

I have not sent a letter to him. (मैंने उसको एक पत्र नहीं भेजा है।)

She has not lived in New Delhi all her life. (वह अपनी पूरी जिंदगी नई दिल्ली में नहीं रही है।)

Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)

Has/ Have + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object?

Wh word + Has/ Have + Subject (कर्ता) + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object?

Have I seen that film before? (क्या मैं यह फिल्म पहले देख चुका हूँ?)

Have they written three letters already? (क्या वे पहले ही तीन चिट्ठियां लिख चुके हैं?)

Has she forgotten her folder? (क्या वह अपना फोल्डर भूल चुकी है?)

Have I sent a letter to him? (क्या मैंने उसको एक पत्र भेजा है?)

Has she lived in New Delhi all her life? (क्या वह अपनी पूरी जिंदगी नई दिल्ली में रही है?)

Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)

Has/ Have + Subject (कर्ता) + not + Verb (क्रिया) की 3rd Form + Object?

Have I not seen that film before? (क्या मैं यह फिल्म पहले नहीं देख चुका हूँ?)

Has she not lived in New Delhi all her life? (क्या वह अपनी पूरी जिंदगी नई दिल्ली में नहीं रही है?)

Present Perfect Continuous Tense

इस Tense का प्रयोग उस कार्य को बताने के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू हुई हो और अभी भी यानी वर्तमान समय में भी जारी हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस Tense में हमेशा क्रिया के साथ समय का वर्णन होता है। और यही चीज़ इसे Present Continuous Tense से अलग करती है। (The present perfect continuous (also called present perfect progressive) is a verb tense which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment. The present perfect continuous usually emphasizes duration, or the amount of time that an action has been taking place.)

हिंदी में इन वाक्यों के अंत में रहा है /रही है /रहे हैं /रहा हूँ /रहे हों (इतने समय से) आता है।

इस tense का प्रयोग इन situations में हो सकता है -

1. कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो पर अभी भी जारी हो (Actions that started in the past and continue in the present)

He has been waiting for you all day. (वह सारा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा है।)

We have been traveling since last December. (हम पिछले दिसंबर से यात्रा कर रहे हैं।)

2. कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ हो और बस अभी अभी पूरा हुआ हो (Actions that started in past and have just finished in present time)

She has been cooking since last night. वह कल रात से खाना बना रही है।

यहाँ पर खाना बन चुका है। कार्य बस अभी अभी समाप्त हुआ है। इसकी जानकारी हमें आगे और पीछे के वाक्यों से मिलेगी। जैसे खाना टेबल पर रखा है और यह वाक्य कहा गया है जो दिखाता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है।

इस tense के बारे में आगे जानने से पहले हम जल्दी से "Since" और "For" का प्रयोग जान लेते हैं -

"Since" का प्रयोग निश्चित समय के लिए और "for" का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात् अवधि [

Duration] के लिए किया जाता है। जैसे -

He has been living here since 2012.

I have been studying English since 1993.

इन दोनों वाक्यों में ही एक निश्चित समय को बताया गया है। इसलिए **since** का प्रयोग हुआ है।

I have been studying English for 4 years.

He has been living here for 3 years.

ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में समय तो बताया है पर वक् अनिश्चित है। एक समयावधि को बताया है इसलिए **for** का प्रयोग हुआ है।

Affirmative Sentence (सकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + have / has + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time.

They have been talking for the last hour. (वे पिछले एक घंटे से बात कर रहे हैं।)

She has been working at that company for three years. (वह तीन साल से उस कंपनी में काम कर रही है।)

Aruna has been teaching at the university since June. (अरुणा जून से विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं।)

We have been waiting here for over two hours! (हम दो घंटे से अधिक समय से यहां इंतजार कर रहे हैं!)

Negative Sentence (नकारात्मक वाक्य)

Subject (कर्ता) + have / has + not + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time.

They have not been talking for the last hour. (वे पिछले एक घंटे से बात नहीं कर रहे हैं।)

She has not been working at that company for three years. (वह तीन साल से उस कंपनी में काम कर नहीं रही है।)

Aruna has not been teaching at the university since June. (अरुणा जून से विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा रही हैं।)

We have not been waiting here for over two hours! (हम दो घंटे से अधिक समय से यहां इंतजार नहीं कर रहे हैं!)

Interrogative Sentence (प्रश्नवाचक वाक्य)

Has/ Have + Subject (कर्ता) + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time + ?

Wh word + Has/ Have + Subject (कर्ता) + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time + ?

Have they been talking for the last hour? (क्या वे पिछले एक घंटे से बात कर रहे हैं?)

Has she been working at that company for three years? (क्या वह तीन साल से उस कंपनी में काम कर रही है?)

Has Aruna been teaching at the university since June? (क्या अरुणा जून से विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं?)

Have we been waiting here for over two hours? (क्या हम दो घंटे से अधिक समय से यहां इंतजार कर रहे हैं?)

Negative Interrogative Sentence (नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)

Has/ Have + Subject (कर्ता) + not + been + Verb (क्रिया) की 1st Form + ing + Object + since / for + time + ?

Have they not been talking for the last hour? (क्या वे पिछले एक घंटे से बात नहीं कर रहे हैं?)

Has she not been working at that company for three years? (क्या वह तीन साल से उस कंपनी में काम नहीं कर रही है?)

Has Aruna not been teaching at the university since June? (क्या अरुणा जून से विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा रही हैं?)

Have we not been waiting here for over two hours? (क्या हम दो घंटे से अधिक समय से यहां इंतजार नहीं कर रहे हैं?)

तो आज की **class** में हमने **Present** टेंस का बारे में सीखा और सीखा कि किन **situations** में हम अलग अलग **tenses** का प्रयोग करेंगे। अगर आप इन्हें याद रखें तो डोलते समय या लिखते समय आपसे कोई गलती नहीं होगी। अगली क्लास में हम **Past tense** के बारे में सीखेंगे।